

-सामान्य अनुदेश

1. पासबुक जमाकर्ता के लिए, उसके द्वारा किए गए लेनदेन का रिकॉर्ड है और इसमें दर्शाये गए शेष पर वैधानिक रूप से दावा नहीं किया जा सकता।
2. जमाकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह पासबुक में दर्शाये शेष को पुष्टि संबंधित डाकघर से करें और डाकघर अपने रिकॉर्ड में दर्शाई जानेवाली वास्तविक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
3. किसी भी प्रयोजन के लिए पासबुक डाकघर को सौंपने पर डाकघर से उसकी मुद्रित पावती हमेशा लें।
4. पासबुक को हमेशा निजी अभिरक्षा में रखें, किसी अन्य व्यक्ति को पासबुक सौंपने की स्थिति में पैसे की किसी प्रकार की हानि होने पर डाकघर उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
5. पासबुक में कहीं पर भी नमूना हस्ताक्षर न करें।
6. लेन-देन के बाद पासबुक में दर्ज शेष की जांच और किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर पोस्टमास्टर से तुरंत संपर्क करें।
7. पासबुक गुम होने की स्थिति में पोस्टमास्टर को तुरंत लिखित में शिकायत करें।
8. यदि पते में कोई बदलाव हो तो इसकी सूचना पोस्टमास्टर को दें।
9. प्राधिकृत एजेंट सहित किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षर किया हुआ बिना भरा (ब्लैंक) निकासी फार्म न सौंपें।
10. अपने खाते से पैसे की निकासी के लिए पोस्टमास्टरों या प्राधिकृत एजेंटों को संदेशवाहक के तौर पर नियुक्त न करें।

Photograph	जमाकर्ता का नाम Depositor(s) Name	
	1. <u>Sandeep Kumar</u>	
	2. <u>MIS I.K. Const.</u>	
Mandatory For SCSS 2004	3. _____	
पता/Address _____ <u>Gharh Par</u>		

जन्म-तिथि/Date of Birth _____ <u>Nalanda</u>		
पिता/अभिभावक का नाम _____ Name of Parent/Guardian _____ (in case of minor) <u>R.W.D. WORKS</u>		
जारी करने की तारीख/Date of Issue <u>13.5.17</u>		
खाते का प्रकार Account Type _____ <u>N.C.C.</u>		चेक खाता (य/न) Cheque A/c (Y/N) _____ <u>Yes</u>
खाता/Account No. <u>3651788938</u>		(for SCSS 2004 only)
Pan No. _____		रजिस्ट्री की तारीख Date of Registration _____
पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर Signature _____ <u>S.P.M.</u>		नामांकन की संख्या Nomination Number _____
_____		_____

सामान्य अनुदेश

1. पासबुक जमाकर्ता के लिए, उसके द्वारा किए गये लेनदेन का रिकॉर्ड है और इसमें दर्शाये गए शेष पर वैधानिक रूप से दावा नहीं किया जा सकता।
2. जमाकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह पासबुक में दर्शाये शेष को पुष्टि सम्बन्धित डाकघर से करें और डाकघर अपने रिकॉर्ड में दर्शाई जाने वाली वास्तविक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
3. किसी भी प्रयोजन के लिए पासबुक डाकघर को सौंपने पर डाकघर से उसकी मुद्रित पावती हमेशा लें।
4. पासबुक को हमेशा अपनी निजी अभिरक्षा में रखें, किसी अन्य व्यक्ति को पासबुक सौंपने की स्थिति में पैसे की किसी प्रकार की हानि होने पर डाकघर उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
5. पासबुक में कहीं पर भी नमूना हस्ताक्षर न करें।
6. लेन-देन के बाद पासबुक में दर्ज शेष की जांच करें और किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर पोस्टमास्टर से तुरन्त संपर्क करें।
7. पासबुक गुम होने की स्थिति में पोस्टमास्टर को तुरन्त लिखित में शिकायत करें।
8. यदि पते में कोई बदलाव हो तो इसकी सूचना पोस्टमास्टर को दें।
9. प्राधिकृत एजेंट सहित किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षर किया हुआ बिना भरा (ब्लैंक) निकासी फार्म न सौंपें।
10. अपने खाते से पैसे की निकासी के लिए पोस्टमास्टरों या प्राधिकृत एजेंटों को संदेशवाहक के तौर पर नियुक्त न करें।

Photograph	जमाकर्ता का नाम Depositor's Name	
	1. <u>Sandeep Kumar</u>	
	2. <u>MIS I.K. Construction</u>	
Mandatory for SCSS 2004	3. _____	
पता/Address _____ <u>Gharh Par</u>		

जन्म-तिथि/Date of Birth _____ <u>Nalanda</u>		
पिता/अभिभावक का नाम _____ Name of Parent/Guardian _____ (in case of minor) <u>E.E. R.W.D. WORKS</u>		
जारी करने की तारीख/Date of Issue <u>23.3.19</u>		
खाते का प्रकार Account Type _____ <u>3rd Party</u>		चेक खाता (य/न) Cheque A/c (Y/N) _____ <u>Yes</u>
खाता/Account No. <u>4368100327</u>		(For SCSS 2004 only)
PAN No. _____		रजिस्ट्री की तारीख Date of Registration _____
पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर Signature _____ <u>S.P.M.</u>		नामांकन की संख्या Nomination Number _____
_____		_____

तारीख
Date

लेनदेन का विवरण
Particulars of Transaction

जमा
Deposit

निकासी
Withdrawal

बकाया
Balance

स.ह.
Initial

13.5.17 Dep't one lakh fifty
thousand only

150000/-

150000/-

S.P.M.
13.5.17
Nalanda College
Bihar Sharif



~~Hedged to E.E. R.W.D. W.D. Roy~~

S.P.M.
Nalanda College
Bihar Sharif

~~Hedged to E.E. R.W.D. W.D. Roy~~

S.P.M.
Nalanda College
Bihar Sharif

2


3

23.3.19 Dep't two lakh five
thousand only

205000/-

205000/-

S.P.M.
23.3.19
Nalanda College
Bihar Sharif



सामान्य अनुदेश

1. पासबुक जमाकर्ता के लिए, उसके द्वारा किए गये लेनदेन का रिकार्ड है और इसमें दर्शाये गए शेष पर वैधानिक रूप से दावा नहीं किया जा सकता।
2. जमाकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह पासबुक में दर्शाये शेष की पुष्टि सम्बन्धित डाकघर से करें और डाकघर अपने रिकार्ड में दर्शाई जाने वाली वास्तविक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
3. किसी भी प्रयोजन के लिए पासबुक डाकघर को सौंपने पर डाकघर से उसकी मुद्रित पावती हमेशा लें।
4. पासबुक को हमेशा अपनी निजी अभिरक्षा में रखें, किसी अन्य व्यक्ति को पासबुक सौंपने की स्थिति में पैसे की किसी प्रकार की हानि होने पर डाकघर उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
5. पासबुक में कहीं पर भी नमूना हस्ताक्षर न करें।
6. लेन-देन के बाद पासबुक में दर्ज शेष की जांच करें और किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर पोस्टमास्टर से तुरन्त संपर्क करें।
7. पासबुक गुम होने की स्थिति में पोस्टमास्टर को तुरन्त लिखित में शिकायत करें।
8. यदि पते में कोई बदलाव हो तो इसकी सूचना पोस्टमास्टर को दें।
9. प्राधिकृत एजेंट सहित किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षर किया हुआ बिना भरा (ब्लैंक) निकासी फार्म न सौंपें।
10. अपने खाते से पैसे की निकासी के लिए पोस्टमास्टरों या प्राधिकृत एजेंटों को संदेशवाहक के तौर पर नियुक्त न करें।

Photograph

जमाकर्ता का नाम

Depositor's Name

Sanjeet Kumar

Mandatory
for SCSS 2004

M/S I.K. Construction

Grass Par

पता/Address

Bihar Sharif

Date of Birth

Name of Parent/Guardian
(in case of minor)

जारी करने की तारीख
Date of Issue

23.3.19

खाते का प्रकार
Account Type

3487.2

चेक खाता (हाँ/नहीं)
Cheque A/c (Yes/No)

खाता/Account No.

4368129885

PAN No.

(For SCSS-2004 only)

पोस्टमास्टर
के हस्ताक्षर

नामांकन
की संख्या

रजिस्ट्री की तारीख

Sign of
Postmaster

Nomination
Number

Date of
Registration

S.P.M.
Nalanda College S.O.
Bihar Sharif

सामान्य अनुदेश

1. पासबुक जमाकर्ता के लिए, उसके द्वारा किए गए लेनदेन का रिकार्ड है और इसमें दर्शाये गए शेष पर वैधानिक रूप से दावा नहीं किया जा सकता।
2. जमाकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह पासबुक में दर्शाये शेष की पुष्टि संबंधित डाकघर से करें और डाकघर अपने रिकार्ड में दर्शाई जाने वाली वास्तविक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
3. किसी भी प्रयोजन के लिए पासबुक डाकघर को सौंपने पर डाकघर से उसकी मुद्रित पावती हमेशा लें।
4. पासबुक को हमेशा अपनी निजी अभिरक्षा में रखें, किसी अन्य व्यक्ति को पासबुक सौंपने की स्थिति में पैसे की किसी प्रकार की हानि होने पर डाकघर उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
5. पासबुक में कहीं पर भी नमूना हस्ताक्षर न करें।
6. लेन-देन के बाद पासबुक में दर्ज शेष की जांच करें और किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर पोस्टमास्टर से तुरन्त संपर्क करें।
7. पासबुक गुम होने की स्थिति में पोस्टमास्टर को तुरन्त लिखित में शिकायत करें।
8. यदि पते में कोई बदलाव हो तो इसकी सूचना पोस्टमास्टर को दें।
9. प्राधिकृत एजेंट सहित किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षर किया हुआ बिना भरा (ब्लैंक) निकासी फार्म न सौंपें।
10. अपने खाते से पैसे की निकासी के लिए पोस्टमास्टरों या प्राधिकृत एजेंटों को संदेशवाहक के तौर पर नियुक्त न करें।

Photograph

जमाकर्ता का नाम

Depositor(s) Name

1. Sanjeet Kumar

Mandatory
For SCSS 2004

M/S I.K. Const.

पता/Address

Grass Par

जन्म-तिथि/Date of Birth

पिता/अभिभावक का नाम

Name of Parent/Guardian
(in case of minor)

जारी करने की तारीख/Date of Issue

चेक खाता (हाँ/नहीं)

खाते का प्रकार

Account Type

खाता/Account No.

Pan No.

पोस्टमास्टर

के हस्ताक्षर

नामांकन

की संख्या

रजिस्ट्री की तारीख

Sign of
Postmaster

Nomination
Number

Date of
Registration

S.P.M.
Nalanda College S.O.
Bihar Sharif

23.3.19 दो लाख सित्त
हजार only

260000/-

260000/-
23.3.19
S.P.M.
Valanda College
Bihar Sharif

तारीख
Date

लेनदेन का विवरण
Particulars of Transaction

जमा
Deposit

निकासी
Withdrawal

बकाया
Balance

स.ह.
Initial

13.5.17 दो लाख सित्त
हजार only

160000/-

160000/-

13.5.17
S.P.M.
Valanda College
Bihar Sharif

~~Placed to C.R.W. with Dr. Rajgarh~~
S.P.M.
Valanda College
Bihar Sharif

~~Placed to C.R.W. with Dr. Rajgarh~~
S.P.M.
Valanda College
Bihar Sharif